

Q1. 1526 ई० में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली ?

- A. सैयद वंश
- B. लोदी वंश
- C. तुगलक वंश
- D. खिलजी वंश

Ans: B

Q2. पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ ?

- A. 21 अप्रैल, 1529
- B. 21 अप्रैल, 1526
- C. 15 अप्रैल, 1528
- D. 20 अप्रैल, 1527

Ans: B

Q3. बाबर ने प्रसिद्ध 'तुलुगमा नीति' का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया ?

- A. खानवा के युद्ध में
- B. घाघरा के युद्ध में
- C. पानीपत के प्रथम युद्ध में
- D. इनमें से कोई नहीं

Ans: C

Q4. किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों, सरों-संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे 'कलंदर' की उपाधि दी गई ?

- A. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526)
- B. खानवा का युद्ध (1527)
- C. चंदेरी का युद्ध (1528)
- D. घाघरा का युद्ध (1529)

Ans: A

Q5. भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनावाई थी

- A. अशोक ने
- B. शेरशाह सूरी ने
- C. अकबर ने
- D. हुमायूँ ने

Ans: B

Q6. सुप्रसिद्ध संगीतज्ञद्वय—तानसेन और बैजू बाबरा—किसके शासनकाल में सुविख्यात थे?

- A. जहाँगीर
- B. बहादुरशाह II 'जफर
- C. अकबर
- D. शाहजहाँ

Ans: C

Q7. 'रामचरित मानस' के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे?

- A. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य
- B. वाजिद अली शाह
- C. हर्षवर्द्धन
- D. अकबर

Ans: D

Q8. किस युद्ध में बाबर ने 'जिहाद' (धर्मयुद्ध) का नाम दिया, 'तमगा' नामक का को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत 'गाजी' (धर्मयोद्धा) की उपाधि धारण की?

- A. खानवा के युद्ध में
- B. याघरा के युद्ध में
- C. पानीपत के प्रथम युद्ध में
- D. इनमें से कोई नहीं

Ans: A

Q9. मुबइयान' नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी' किस भाषा में लिखी?

- A. फारसी में
- B. उर्दू में
- C. तुर्की में
- D. अरबी में

Ans: C

Q10. बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था?

- A. फरगना
- B. कंधार
- C. तक्षशिला
- D. पंजाब

Ans: A

Q11. बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया?

- A. कश्मीर

- B.सिंध
- C.पंजाब
- D.गजस्थान

Ans: C

Q12.हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया ?

- A.1526 ई० में
- B.1576 ई० में
- C.1605 ई० में
- D.1660 ई० में

Ans: B

Q13.फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा ?

- A.हुमायूँ
- B.दारा शिकोह
- C.बहादुरशाह जफर
- D.अकबर

Ans: D

Q14.किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' की रचना की?

- A.अकबर
- B.शेरशाह
- C.बाबर
- D.ओरंगजेब

Ans: B

Q15.किसने चौसा की लड़ाई (1539) में हुमायूँ को पराजित किया था ?

- A.शेरशाह
- B.महाराणा प्रताप
- C.शिवाजी
- D.इनमें से कोई नहीं

Ans: A

Q16.मुगल प्रशासन में 'मुहतसिव' था

- A.सेना अधिकारी
- B.विदेश विभाग का प्रमुख
- C.लोक आचरण अधिकारी

D.पत्र-व्यवहार विभाग का अधिकारी

Ans: C

Q17.मुगल प्रशासन में 'मदद-ए-माश' इंगित करता है

- A.चुंगी कर
- B.विद्वानों को दी जानेवाली राजस्वमुक्त अनुदत्त भूमि
- C.सैन्य अधिकारियों को दी जानेवाली पेंशन
- D.बुवाई कर

Ans: B

Q18.'दास्तान-ए-अमीर हम्जा' का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया?

- A.अब्दुस समद
- B.मंसूर
- C.मीर सैयद अली
- D.अबुल हसन

Ans: A

Q19.निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले 'हजरत-ए-आला' की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की ?

- A.बहलोल लोदी
- B.सिकंदर लोदी
- C.ज़ेरशाह सूरी
- D.इस्लामशाह सूरी

Ans: C

Q20.निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया?

- A.आलमगीर द्वितीय
- B.शाह आलम द्वितीय
- C.अकबर द्वितीय
- D.बहादुरशाह द्वितीय

Ans: B

Q21.मस्नवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है?

- A.मुबायीन
- B.वीवान
- C.प्रोसाङ्गी पर तुकी संग्रह
- D.बाबरनामा

Ans: A

Q22.ओंगजेब द्वारा चलाये जिहाद का अर्थ है

- A.दार-उल-हर्ब
- B.दार उल इस्लाम
- C.पवित्र युद्ध
- D.जजिया

Ans: B

Q23.दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था ?

- A.अकबर
- B.नूरजहाँ
- C.जहाँगीर
- D.शाहजहाँ

Ans: D

Q24.हुमायूँ द्वारा लड़े गये चार प्रमुख युद्धों का तिथिअनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं

- A.चौसा, दौरा, कन्नौज/बिलग्राम, सरहिन्द
- B.दौरा, चौसा, कन्नौज/ बिलग्राम, सरहिन्द
- C.सरहिन्द, दौरा, चौसा, कन्नौज/ बिलग्राम
- D.दौरा, चौसा, सरहिन्द, कन्नौज या बिलग्राम

Ans: B

Q25.निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगलकाल का 'स्वर्णयुग' कहा है?

- A.वी. ए. स्मिथ
- B.जे. एन. सरकार
- C.ए. एल. श्रीवास्तव
- D.इनमें से कोई नहीं

Ans: C

Q26.अकबर द्वारा अपनाई गई 'सुलह-ए-कुल' (सार्वभौम शांति तथा भाईचारा) की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी ?

- A.राजनीतिक उदारता
- B.धार्मिक सहनशीलता
- C.उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण
- D.उपर्युक्त सभी

Ans: D

Q27.प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है

- A.आगरा में

B.ग्वालियर में

C.झाँसी में

D.जयपुर में

Ans: B

Q28.गुलबदन बेगम पुत्री थी

A.बावर की

B.हुमायूँ की

C.शाहजहाँ की

D.ओरंगजेब की

Ans: A

Q29.मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था ?

A.अहार

B.कस्तूर

C.सूबा

D.सरकार

Ans: D

Q30.किस सिक्ख गुरु की मृत्यु के लिए ओरंगजेब जिम्मेदार हैं?

A.गुरु गोविंद सिंह

B.गुरु तेग बहादुर

C.गुरु रामदास

D.गुरु अंगददेव

Ans: B